



GIL/GKP/2024-25
October 30, 2024

BSE Limited
Floor 25, PJ Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001
INDIA
Scrip Code: 532726

National Stock Exchange of India Limited
"EXCHANGE PLAZA"
Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai- 400 051 INDIA
Symbol: GALLANTT

Dear Sir/Madam,

**SUB: NEWSPAPER CUTTINGS FOR PUBLICATION OF UNAUDITED
STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024**

Please find attached herewith the newspaper cuttings for publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2024 in two newspapers Business Standard (English all edition) and Aaj (Hindi - Vernacular).

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For GALLANTT ISPAT LIMITED

Nitesh Kumar
(CS & COMPLIANCE OFFICER)
M. No. F7496

Encl: As above

GALLANTT ISPAT LIMITED

CIN: L27109UP2005PLC195660

Registered Office & Gorakhpur Unit: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA),
Sahjanwa, Gorakhpur - 273209, Uttar Pradesh

Tele-fax: 0551 3515500, E-mail: csgml@gallantt.com, Website: www.gallantt.com

Gujarat Unit: Survey No. 175/1, Near Toll Gate, Samakhyali, Bhachau, Distt. Kutch - 370150, Gujarat

FORCE MOTORS LIMITED

CIN L34102PN1958PLC011172

Regd. Office : Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035, INDIA.

**EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2024.**

Sr. No.	Particulars	CONSOLIDATED (₹ IN LAKHS)		
		Quarter ended 30 Sept. 2024 (Unaudited)	Half-Year ended 30 Sept. 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 Sept. 2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	1,94,133	3,82,623	1,80,168
2	Net Profit before Tax and Exceptional items	21,148	39,330	14,677
3	Net Profit before Tax and after Exceptional items	21,148	39,330	14,677
4	Net Profit after Tax	13,505	25,078	9,389
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13,427	25,290	9,242
6	Equity Share Capital	1,318	1,318	1,318
7	Other Equity (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)		2,24,196	
8	Earnings Per Share (Face value of ₹10/- per Share) Basic and Diluted Earnings Per Share (not annualised) (in ₹)	102.46	190.27	71.23

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION :

Sr. No.	Particulars	STANDALONE (₹ IN LAKHS)		
		Quarter ended 30 Sept. 2024 (Unaudited)	Half-Year ended 30 Sept. 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 Sept. 2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	1,94,120	3,82,598	1,80,157
2	Profit before Tax and Exceptional Items	21,707	40,273	15,111
3	Profit before Tax and after Exceptional Items	21,707	40,273	15,111
4	Profit after Tax	14,068	26,027	9,826
5	Total Comprehensive Income (after tax)	13,990	26,238	9,677

The above information has been extracted from the detailed Quarterly Financial Results, which have been reviewed by the Audit Committee, approved by the Board of Directors, subjected to a limited review by the Statutory Auditors and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website at www.forcemotors.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Pune
Date : 29 October 2024
ABHAYKUMAR NAVALMAL FIRODIA
Chairman
DIN : 00025179
www.forcemotors.com**TENDER NOTICE**

Bank of Baroda, Baroda Zone invites bids for Supply, Installation & Commissioning of UPS Systems and the RFP is uploaded in GeM portal vide Bid GEM/2024/B/5542157 dated 24/10/2024. For further details download the Tender Documents from GeM Portal and Bidding is to be done in GeM portal only. Any Addendum/Corrigendum including modification in the tender document shall be notified on the tender section of Bank website www.bankofbaroda.in. Bidder should refer the same before submission of proposal.

Last Date of Submission: 13/11/2024 upto 3 p.m in GeM portal

Place: Baroda Date: 30-10-2024

General Manager, Baroda Zone

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
A Tata Power and Delhi Government Joint VentureRegd. Office : NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009
Tel : 66112222, Fax : 27468042, Email : TPDDL@tatapower-dli.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526 Website : www.tatapower-dli.com**NOTICE INVITING TENDERS** Oct 30, 2024

TATA Power-DLI invites tenders as per following details:

Tender Enquiry No. / Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids
TPDDL/PMG/Tender/Banking-2024/01 Notice Inviting bids for banking of up to 100 MW RTC / Slot-wise power on firm basis for the period of 01.12.24 to 30.09.25.	10 Lacs	30.10.2024	21.11.2023:1500 Hrs 21.11.2023:1530 Hrs

Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapower-dli.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

**Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and six months ended 30th September, 2024**

Particulars	Quarter ended			Six months ended		Year ended 31.03.2024 (Audited)
	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	
Total Income	2724.58	2363.73	5001.27	7725.85	5793.56	12734.47
Profit from operations before share of profit of joint ventures and associates and tax	237.69	118.12	480.87	718.56	352.07	624.41
Share of profit / (loss) of joint ventures and associates	(32.26)	(33.16)	(29.35)	(61.61)	(64.20)	(138.61)
Profit before tax	205.43	84.96	451.52	656.95	287.87	485.80
Net Profit for the period	132.83	35.65	335.00	467.83	165.07	248.11
Total Comprehensive Income for the period	219.54	134.70	420.38	639.92	406.86	503.15
Paid up equity share capital (Face value ₹ 1/- each)	33.08	33.08	33.08	33.08	33.08	33.08
Earnings per share (* not annualised)						
Basic and diluted (₹)	*4.05	*1.11	*10.10	*14.15	*5.02	7.62

Notes:

1. These results have been reviewed by the Board Audit Committee at Meeting held on 28th October, 2024 and approved by the Board of Directors at its Meeting held on 29th October, 2024.

2. Information on Standalone Financial Results:

Particulars	Quarter ended			Six months ended		Year ended 31.03.2024 (Audited)
	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	
Total Income	1804.51	1416.27	4069.85	5874.36	4221.76	8987.76
Profit before tax	161.40	130.89	427.17	588.57	400.42	758.20
Net Profit for the period	108.78	102.00	339.14	447.92	316.61	604.26

3. As earlier reported, the Group had through its Qatar Branch entered into a sub-contract along with a consortium partner with a Main Contractor in the year 2010. The Main Contract between the Ultimate Client and the Main Contractor was terminated by the Ultimate Client closer to the completion of the contract in 2014 citing delays and defects in execution and initiated arbitration proceedings against the Main Contractor for which, the final award is pending. Accordingly, the Group had made a comprehensive assessment of the losses arising on account of such termination of the Main contract and cessation of work and accounted for all probable losses on the sub-contract in the earlier years.

The Group had issued bank guarantees amounting to approximately ₹ 383 crores (QAR 166.6 million) to the Main Contractor which have been disclosed as a contingent liability over the years. In June 2023, the Group was intimated of a request received by the bank from the Main Contractor for encashment of the said bank guarantees, which due to certain deficiencies was not paid by the bank to the Main Contractor. The Main Contractor had filed a suit against the Bank which has been dismissed. Further, the Group and the Main Contractor had also filed claims and counter claims against each other which have also been dismissed. Accordingly, all the parties, including the Group, have filed their respective appeals with the Court of Appeal. Due to the aforesaid developments in 2023 and 2024, the Group has re-assessed its liability under the sub-contract and also sought legal opinion by an independent lawyer on the contractual aspect and is confident that it has good grounds to defend any claims that may arise. Accordingly, no further provision has been considered in the financial results. The Group has taken all necessary steps, including legal remedies to safeguard and defend itself. The matter is sub-judice and the Group is closely monitoring the developments as they arise.

4. The Statutory Auditors of the Company have conducted a "Limited Review" of the aforesaid financial results.


5. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and six months ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and six months ended 30th September, 2024 are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.voltas.com.

For and on behalf of the Board of Directors
of Voltas Limited
Pradeep Bakshi
Managing Director & CEO

Mumbai, 29th October, 2024

VOLTAS LIMITED

Registered Office : Voltas House 'A', Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Chinchpokli, Mumbai 400 033, India.
Tel. No. : 91 22 66656666 Fax No. : 91 22 66656231
e-mail : shareservices@voltas.com Website : www.voltas.com
CIN : L29308MH1954PLC009371

**Aditya Birla Sun Life Mutual Fund**

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mills, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400 013. Tel: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: L65999MH1994PLC080811

Notice

Notice is hereby given to the investors that in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations 1996, the unaudited Half Yearly Financial Results of the schemes of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund ("the Fund") for the half year ended September 30, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. <https://mutualfund.adityabirlacapital.com/>

Unitholders are requested to update their latest e-mail id and mobile number to help us serve better.

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited
(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)

Sd/-
Authorised Signatory

Date : October 29, 2024
Place : Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L67120KL1994PLC007726
Regd. Office: 3rd Floor, Muthoot Towers, M.G. Road, Kochi - 682 035
Tel: + 91 - 484 - 6619600 / 6613450, Fax: + 91 - 484 - 2381261
Web: www.muthootcap.com Email: mail@muthootcap.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year Ended September 30, 2024

Sl. No.	Particulars	(₹. In Lakhs except earnings per share)		
		Quarter Ended 30.09.2024	Quarter Ended 30.09.2023	Previous year ended 31.03.2024
1.	Total income from operations	10865.28	9794.42	39840.02
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2161.86	1614.43	6849.23
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	2161.86	1199.08	1643.88
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1597.19	832.14	12265.79
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (After tax)]	1626.58	834.09	12249.46
6.	Paid up Equity Share Capital	1644.75	1644.75	1644.75
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of previous year (as on 31.03.2024)		59,530.14	
8.	Securities Premium Account		20,134.80	
9.	Net worth	63942.40	59042.74	61774.90
10.	Outstanding Debt	215657.47	158611.61	166142.09
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL
12.	Debt Equity Ratio	3.37	2.69	2.72
13.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic (EPS) (₹)	9.71	50.60	74.58
	2. Diluted (DPS) (₹)	9.71	50.60	74.58
14.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15.	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Note:
(a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the National Stock Exchange of India website (www.nseindia.com/corporates), the BSE Ltd website (www.bseindia.com/corporates) and on the Company's website (www.muthootcap.com/investors)
(b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges and can be accessed on the National Stock Exchange of India website (www.nseindia.com/corporates), the BSE Ltd website (www.bseindia.com/corporates).

For Muthoot Capital Services Limited
Sd/- Thomas George Muthoot Managing Director DIN:00011552
Sd/- Thomas Muthoot Director DIN:00082099

Kochi - 35
Oct 30, 2024**GALLANT****GALLANTT ISPAT LIMITED**

CIN: L27109UP2005PLC195660

Regd. Office: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA), Sahjanwa, Gorakhpur - 273209, Uttar Pradesh

Contact No: 0551-3515500; www.gallantt.com; E-mail: csigm@gallantt.com**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024**

Sl. No.	Particulars	STANDALONE RESULTS						CONSOLIDATED RESULTS					
		Quarter ended 30.09.2024	Quarter ended 30.06.2024	Quarter ended 30.09.2023	Half-Year ended 30.09.2024	Half-Year ended 30.09.2023	Year ended 31.03.2024	Quarter ended 30.09.2024	Quarter ended 30.06.2024	Quarter ended 30.09.2023	Half-Year ended 30.09.2024	Half-Year ended 30.09.2023	Year ended 31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations (Net)	94,464.07	1,16,084.67	95,192.54	2,10,548.73	1,98,939.15	4,23,396.81	94,464.07	1,16,084.67	95,192.54	2,10,548.73	1,98,939.15	4,23,396.81
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	6,508.68	17,933.97	5,437.52	24,442.64	9,551.52	31,131.74	6,508.68	17,933.97	5,437.52	24,442.64	9,551.52	31,131.74
3.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary Items)	6,508.68	17,933.97	5,437.52	24,442.64	9,551.52	31,131.74	6,508.68	17,933.97	5,437.52	24,442.64	9,551.52	31,131.74
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4,889.25	12,186.94	4,725.91	17,076.18	7,796.58	22,533.81	4,889.25	12,186.94	4,726.11	17,076.18	7,797.96	22,534.87
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,945.20	12,234.59	4,747.87	17,179.79	7,840.51	22,569.53	4,945.20	12,234.59	4,748.07	17,179.79	7,841.88	22,570.59
6.	Paid up Equity Share Capital	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09	24,128.09
7.	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -												
	1. Basic:	2.03	5.05	1.96	7.08	3.23	9.34	2.03	5.05	1.96	7.08	3.23	9.34
	2. Diluted:	2.03	5.05	1.96	7.08	3.23	9.34	2.03	5.05	1.96	7.08	3.23	9.34

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2024 (UFR) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the UFR is available on the website of BSE Limited - www.bseindia.com and National Stock Exchanges of India Limited - www.nseindia.com where the securities of the Company are listed and is also available on the website of the Company - www.gallantt.com

2. The above Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on 28th October, 2024. UFR have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

3. Previous period / year figures have been rearranged / regrouped, reclassified and restated wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors
GALLANTT ISPAT LIMITED
C.P. Agrawal
Chairman & Managing Director
(DIN: 01814318)

Date: 28.10.2024
Place: Gorakhpur

